

**राजस्थान विधान सभा**  
**चतुर्थ सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2010**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. शोकाभिव्यक्ति**

श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, पूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

**3. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

(I)- राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत सर्वश्री राजपाल सिंह शेखावत/अभिषेक मटोरिया/अशोक परनामी/मोहनलाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा, जयपुर को विश्व-स्तरीय शहर बनाने के संबंध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(II) - राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा राज्य में जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु महाराष्ट्र प्रणाली को शक्तावत समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किये जाने के संबंध में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

**4. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**वार्षिक प्रतिवेदन**

श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 सदन की मेज पर रखेंगे ।

**5. याचिकाओं का उपस्थापन**

1- श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

(I) दातारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की डामर सड़कों का रिनोवेशन एवं सुदृढीकरण करने बाबत् ।

(II) दातारामगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् ।

जारी...2...

- 2- श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में जोधपुर (अनाज) मण्डी क्षेत्र देचु में गौण मण्डी यार्ड की स्थापना एवं निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- 3- श्री हरिसिंह रावत, सदस्य, विधान सभा, नगरपालिका एवं उपखण्ड देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- 4- श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-
- (I) जिला जैसलमेर के ग्राम तम्डेराय रोड़ फांटा से ग्राम पोलजी की डेयरी के मध्य 2 किलोमीटर सड़क बनाने बाबत् ।
- (II) जैसलमेर-बाड़मेर रोड़ के 11 किलोमीटर से चुनाराम भील की ढाणी तक 2 किलोमीटर रोड़ बनाने बाबत् ।
- 5- श्री मदन प्रजापत, सदस्य, विधान सभा, जोधपुर संभाग में बालोतरा को जिला घोषित कर क्षेत्रीय जनता को राहत प्रदान करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

## 6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011

### द्वितीय अवस्था

### अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	37 - कृषि
2.	39 - पशुपालन एवं चिकित्सा

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

एच.आर. कुड़ी  
सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 22 मार्च, 2010